


## ज़रा सिर तो खुजलाइए



### कैसे बनाया बच्चे ने संतुलन

पिछले अंक में पूछा गया सवाल: कोई भी बच्चा इस लड़के के साथ खेलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। उमने झूलने के लिए क्या तरकीब लगाई?


**कि** सी पार्क में जाकर झूलने के पटिए को उखाड़कर इस तरह की छेड़-छाड़ करना तो शायद हर किमी के लिए संभव नहीं होगा! इसलिए इस सवाल में जो स्थिति दर्शाई गई है कि नीचे का आधार ठीक बीचों-बीच न होने के कारण झूला दाहिनी ओर झुका हुआ है, आइए वैसी ही कुछ स्थिति बनाकर एक आमन-सा प्रयोग करके देखते हैं।

इस प्रयोग में झूले के पटिए की जगह एक फुट या आधा मीटर का लकड़ी का पैमाना इस्तेमाल करते हैं और नीचे लगे तिकोने आधार की जगह धागे का एक टुकड़ा।

चित्र (अगले पेज पर) में दिखाए मुताबिक लटकाए गए पैमाने को, धागे को इधर-उधर खिसकाकर संतुलित किया जा सकता है। यह तो बन गया एक साधारण संतुलित झूला। अब कल्पना के घोड़े इसके दोनों सिरों पर बिठाकर बाकायदा झूला झूल सकते हैं!

प्रश्न जैसी स्थिति पैदा करने के लिए इस धागे को थोड़ा-मा बाईं तरफ सरका देते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा करने पर दाहिनी तरफ का भारी हिस्सा नीचे को झुक जाएगा।

अब मान लीजिए एक छोटा-सा गुड़ा बनाकर बाईं तरफ की बाजू पर टिका दिया तो क्या होगा? पैमाना बाईं तरफ झुक जाएगा या पहले की तरह दाहिनी तरफ ही झुका रहेगा? अगर आपने कभी ऐसा प्रयोग करके देखा हो तो आप झट से कह देंगे कि बाईं तरफ गुड़ा रखने पर पैमाने किस तरफ झुकेगा, वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि गुड़ा बीच वाले धागे से कितनी दूरी पर रखा हुआ




है। यानी कि अगर गुड़ा धागे के बहुत करीब रखा जाए तो पैमाना पहले की तरह दाईं ओर झुका रहेगा। धीरे-धीरे उसे धागे से दूर सरकाने पर आप पाएंगे कि अब पैमाना संतुलित अवस्था में आ गया है यानी किसी भी ओर झुका हुआ नहीं है। और अगर गुड़े को बाईं ओर एकदम किनारे की तरफ ले जाएं तो पैमाना बाईं तरफ झुक जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो वापस अपने सवाल पर लौट सकते हैं। यानी कि झूले पर बैठा हुआ लड़का पटिए के बाएं बाले हिस्से में एक ऐसा बिन्दु हूँड सकता है जहां बैठने पर झूला संतुलित हो जाएगा। उस बिन्दु से थोड़ा आगे की ओर ( दाहिनी तरफ ) सरकाने पर झूले का दाहिना हिस्सा नीचे झुक जाएगा और थोड़ा पीछे की ओर ( बाईं तरफ ) सरकाने पर झूले का बायां हिस्सा नीचे की तरफ आ जाएगा।

तो बस यही है जवाब — किसी अन्य बच्चे की गैरमौजूदगी में इस बच्चे ने पूरी व्यवस्था ऐसी जमा ली कि बस खुद को थोड़ा-सा आगे या थोड़ा-सा पीछे सरकाकर पटिए पर झूला जा सकता है और दो लोगों का मज़ा भी अकेले ही लूटा जा सकता है!

### बच्चे का झूलना और बल आधूर्ण

इस बच्चे ने अकेले झूला झूलने का जो तरीका खोजा है उसे 'बल आधूर्ण' का सिद्धांत भी कहते हैं। सरल रूप में इस सिद्धांत को ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी संतुलित पैमाने पर एक तरफ लटकाया गया छोटा वजन दूसरी तरफ लटकाए गए भारी वजन को भी संतुलित कर सकता है। एक-दूसरे को संतुलित करने के लिए उन्हें कहां लटकाना पड़ेगा यह इस नियम से तय होता है:



बाईं तरफ लटकाया गया वजन  $\times$  उस वजन की संतुलन बिन्दु से दूरी =  
दाहिनी तरफ लटकाया गया वजन  $\times$  उस वजन की संतुलन बिन्दु से दूरी

$$'क' \text{ ग्राम} \times 'च' \text{ से. मी.} = 'ख' \text{ ग्राम} \times 'छ' \text{ से. मी.}$$

आप खुद यह प्रयोग एक पैमाने, धागे के टुकड़े और छोट-बड़े पत्थरों या बांट की मदद से कर सकते हैं।

**इस बार का ज़रा सिर तो खुजलाइए पृष्ठ 54 पर।**